



## कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक-03.01.2023

### थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल के साथ 02 नफ़र अभियुक्त 1-ओमप्रकाश राजभर व 2-दिपांशू मौर्या गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1.ओमप्रकाश राजभर पुत्र इन्दल राजभर निवासी सुद्वीपुर थाना शिवपुर कमि० वाराणसी व 2.दिपांशू मौर्या पुत्र सुबाष मौर्या निवासी सुद्वीपुर थाना शिवपुर कमि० वाराणसी को चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल के साथ दिनांक-02.01.2023 को समय 21.05 बजे सिंहपुर अण्डरपास से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा मु०अ०सं०-0004/2023 धारा 41/411/414 भा०द०वि० पंजीकृत कर, आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 1.ओमप्रकाश राजभर पुत्र इन्दल राजभर निवासी सुद्वीपुर थाना शिवपुर कमि० वाराणसी उम्र 20 वर्ष।
- 2.दिपांशू मौर्या पुत्र सुबाष मौर्या निवासी सुद्वीपुर थाना शिवपुर कमि० वाराणसी उम्र 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण- चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल पल्सर 125 CC कलर काला, इंजन नं०-DHYRKH78156 चेचिंस नं०-MD2B64BY6KRH08508 बरामद।

विवरण पूछताछ-अभियुक्तगण ओमप्रकाश राजभर व दीपांशू मौर्या ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनो दोस्त है और एक साथ रहते हैं। हम लोग घुम-फिर कर मौका ताड़ कर इधर-उधर से मोटर साइकिल चोरी करते हैं तथा गाजीपुर के रास्ते बिहार ले जाकर बेच देते है। जो भी पैसा मिलता है उससे हम लोग खाते-पीते और मौज-मस्ती करते है। यह मोटर साइकिल हम दोनो कुछ दिन पहले गोलगढ़ा आदमपुर के पास से चोरी किये थे और आज इस मोटर साइकिल को बेचने के लिए शहर में जा रहे थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

#### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1-उ०नि० सोमन कुमार थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
- 2-उ०नि० दिगम्बर उपाध्याय थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
- 3-का० संतोष कुमार यादव थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
- 4-का० विनोद कुमार थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

क्र.सं.	नाम	पता	फोन नं.
1.	श्री. राजेश कुमार	श्री. राजेश कुमार	9876543210
2.	श्री. विजय कुमार	श्री. विजय कुमार	9876543210
3.	श्री. अमित कुमार	श्री. अमित कुमार	9876543210
4.	श्री. सुरेश कुमार	श्री. सुरेश कुमार	9876543210
5.	श्री. प्रदीप कुमार	श्री. प्रदीप कुमार	9876543210
6.	श्री. अजय कुमार	श्री. अजय कुमार	9876543210
7.	श्री. विक्रम कुमार	श्री. विक्रम कुमार	9876543210
8.	श्री. अशोक कुमार	श्री. अशोक कुमार	9876543210
9.	श्री. अरवि कुमार	श्री. अरवि कुमार	9876543210
10.	श्री. अक्षय कुमार	श्री. अक्षय कुमार	9876543210

